



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 27-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 3, 2018 (ASADHA 12, 1940 SAKA )

## General Review

रोजगार विभाग, हरियाणा की वित्तीय वर्ष 2015-2016 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 25 जून, 2018

No. Press/Admn.Report 2015-16/12818/1354.—

1. श्री प्रवीन कुमार, आई0ए0एस0 दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक रोजगार विभाग, हरियाणा में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। विभाग का प्रशासकीय नियन्त्रण श्रीमति शशी बाला गुलाटी, आई0ए0एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पास दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक रहा।
2. रोजगार विभाग, हरियाणा का 55 रोजगार कार्यालयों का नेट वर्क राज्य में बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार सहायता तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को उनकी मानव-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मदद कर रहा है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

1	राज्य रोजगार कार्यालय, हरियाणा	1
2	मंडल रोजगार कार्यालय	4
3	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र	3
4	जिला रोजगार कार्यालय	16
5	उप मंडल रोजगार कार्यालय	31
कुल योग		55

3. समीक्षा अवधि के दौरान :—

- (क) रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार सहायता हेतु 1,13,261 प्रार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये तथा 560 प्रार्थियों को लाभप्रद रोजगार में लगाया गया।
- (ख) इसी प्रकार 40,289 महिला प्रार्थियों के नाम रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत किये गये तथा 8 महिला प्रार्थियों को रोजगार में लगाया गया।

- (ग) 1,070 दिव्यांग प्रार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये ।
- (घ) मुख्यालय पर राज्य रोजगार कार्यालय ने किसी भी प्रार्थी को नौकरी नहीं दिलवाई । (विचाराधीन अवधि के दौरान इस कार्यालय द्वारा दिव्यांग कक्ष द्वारा प्रार्थियों का पंजीकरण आन लाइन किया गया तथा 1 दिव्यांग प्रार्थी को रोजगार उपलब्ध करवाया गया ।
4. दिनांक 31.03.16 को रोजगार कार्यालयों के संजीव रजिस्टर पर 7,87,534 बेरोजगार प्रार्थी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि दिनांक 31.03.15 को यह संख्या 7,84,187 थी । पंजीकृत प्रार्थियों का अधिकतर भाग शिक्षित वर्ग में अकुशल तथा अनुभवहीन था ।
5. वैतनिक नौकरियां कम होने के कारण विभाग ने नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू करने के लिए प्रेरित करने का कार्य आरम्भ किया है तदनुसार रोजगार अधिकारी, बेरोजगार प्रार्थियों को अपना कामधंधा शुरू करने के लिए स्व-रोजगार के अवसरों बारे सूचना एवं मार्गदर्शन देते रहे हैं । उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 2015-16 के दौरान 35,000 व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया गया तथा 150 प्रार्थियों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न वित्तीय एजेंसियों को भेजे ।
6. वर्ष 2015-16 के दौरान रोजगार कार्यालयों में स्थित व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाईयों द्वारा 15,230 विद्यार्थियों तथा प्रार्थियों को व्यावसायिक सूचना प्रदान की गई । इन इकाईयों द्वारा इस वर्ष 2015-16 में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह आयोजित किये गये ताकि अधिक से अधिक शिक्षित प्रार्थी अपनी व्यावसायिक योजना बारे उपयुक्त समय का लाभ उठा सकें । इन सप्ताहों के दौरान 850 व्यावसायिक प्रवचन स्कूलों/कालेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये गये, जिसके फलस्वरूप 22,280 व्यक्ति लाभान्वित हुए ।
7. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम-1959 के अन्तर्गत 120 संस्थापनाओं के रोजगार सम्बन्धी रिकार्ड का निरीक्षण रोजगार अधिकारियों द्वारा किया गया । निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 46 संस्थापनाओं को भविष्य में अधिनियम की पूर्ण अनुपालना करने का परामर्श दिया गया । 1 संस्थापना को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा 73 संस्थापनाओं के रिकार्ड में कोई त्रुटि न होने के कारण रिपोर्ट्स फाईल कर दी गई ।
8. **बेरोजगारी भत्ता स्कीम:-**

सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता से सम्बन्धित नई स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसका नाम शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 है । पुरानी स्कीम 31.10.05 से समाप्त हो गई है और नई स्कीम 1.11.05 से लागू की गई है ।

अब सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता की दरों में पुनः संशोधन कर दिया है जो 1.4.09 से निम्नानुसार लागू है:-

श्रेणी	योग्यता	दर प्रतिमास (01.11.2005)	संशोधित दर प्रतिमास (01.04.2009)
पुरुष योग्य प्रार्थी	10+2 (गैर विज्ञान) स्नातक व उससे अधिक (गैर विज्ञान)	300/- 500/-	500/- 750/-
पुरुष योग्य प्रार्थी	10+2 (विज्ञान) स्नातक व उससे अधिक (विज्ञान)	450/- 750/-	750/- 1,000/-
सभी योग्य महिला प्रार्थी	10+2 स्नातक व उससे अधिक	450/- 750/-	900/- 1,500/-

9. **कमी:-** कोई नहीं ।
10. **अधिकता:-** स्कूलों तथा कालेजों में निकले रोजगार मंडी में प्रवेश करने वाले अनुभवहीन प्रार्थी, चालक, स्टैनो हिन्दी, टाईपिस्ट (हिन्दी व अंग्रेजी), सफाई कर्मचारी तथा अकुशल कामगारों की उनकी मांग की तुलना में अधिकता रही ।

दिनांक: 29 जनवरी, 2018.

टी0 सी0 गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
रोजगार विभाग ।

**Review of the Annual Administrative Report of Employment Department, Haryana for the  
Financial Year 2015-2016**

The 25th June, 2018

**No. Prss/Admn.Report-2015-16/2018/1354.—**

1. Sh. Parveen Kumar, IAS, remained as Director of Employment, Haryana from 01.04.15 to 31.03.16. The Department remained under the Administrative control of Smt. Shashi Bala Gulati, IAS, Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana from 01.04.15 to 31.03.16.
2. The Department of Employment, Haryana has a network of 55 Employment Exchanges which assist job seekers in securing jobs and to help employers in public and private sectors in meeting their manpower requirements, as detailed below:-

(1)	State Employment Exchange	1
(2)	Divisional Employment Exchange	4
(3)	University Employment Information & Guidance Bureaux	3
(4)	District Employment Exchanges	16
(5)	Sub-Divisional Employment Exchanges	31
<b>Total</b>		<b>55</b>

3. During the year under report:-
  - (a) The Employment Exchanges registered 1,13,261 persons for employment assistance and placed 560 persons in gainful employment.
  - (b) 40,289 women applicants were registered for employment assistance and 8 applicants were placed in different jobs.
  - (c) Physically challenged applicants numbering 1,070 were registered for employment.
  - (d) At the Headquarter, no applicant was provided the job by the State Employment Exchange. During this period, physically challenged applicants were registered online and 1 differentially abled applicant was given employment.
4. 7,87,534 job seekers were awaiting employment assistance on the Live Register of the Employment Exchanges as on 31.03.16 as compared to 7,84,187 applicants at the end of 31.03.15. The majority of the registered applicants belonged to fresher categories i.e. educated persons without any training or work experience.
5. Due to shortage of paid jobs, the Department has taken the task of persuading the job seekers for self employment and accordingly, the Employment Officers provided information in respect of Self-employment avenues and guidance to employment seekers in order to help them to set up their own enterprises. As a result of their efforts, 35,000 applicants were guided to adopt self employment during the year 2015-16 and 150 applicants have sent application to different agencies for approval of the loan.
6. The Vocational Guidance Unit of the Employment Exchanges disseminated occupational information to 15,230 students and applicants during the year 2015-16. In order to have the maximum coverage of the educated persons at the appropriate stage in their career planning, these units in the State organized Career Weeks in the year of 2015-16. During these weeks, 850 career talks were delivered in Schools/ Colleges / Industrial Training Institutes and 22,280 persons took the benefit of these talks.
7. The Officers of Department inspected the Employment Records of 120 Establishments in Private Sector for proper enforcement of the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959. 46 Establishments were advised for compliance of the Act, 1959 in future, One Establishment was issued show cause notice and 73 Inspection Reports were filed.

**8. Unemployment Allowance Scheme:**

The Government launched a new unemployment allowance scheme w.e.f 1st November, 2005 known as The Unemployment Allowance for Educated Unemployed Scheme 2005. The old scheme stand terminated on 31 October, 2005. The Government has revised the rates of Unemployment Allowances w.e.f. 1.04.2009 as below:-

Category	Qualification	Rate per month (01-11-2005)	Revised rate (01-04-2009)
Male Eligible applicants.	10+2 (without Science)	300/-	500/-
	Graduate & above (without Science)	500/-	750/-
Male Eligible applicants.	10+2 (with Science)	450/-	750/-
	Graduate & above (with Science)	750/-	1,000/-
All Female Eligible applicants.	10+2 (including Science)	450/-	900/-
	Graduate & above (including Science)	750/-	1,500/-

**9. Shortage: None**

- 10.** Fresh School/ College leaver's un-experienced / untrained applicants, Drivers, Steno Hindi, Typists Hindi/ English, Sweepers and Unskilled workers were surplus as compared to their demand in the State during the period.

Dated: 29th January, 2018.

T. C. GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Employment Department.